

भारत का राजपत्र **The Gazette of India.**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 1972/कार्तिक 16, 1894
 No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 1972/KARTIKA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st November 1972

No. CI-13(II)/70.—In partial modification of the Resolution No. CI-13(II)/70 dated the 12th October, 1970 of the former Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals) published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 174 dated 15th October, 1970, and in continuation of the Resolution of even number dated 24th April, 1972 the Government of India has been pleased to grant time till 31st March, 1973 for the submission of the final Report of the Fuel Policy Committee.

Shri T. L. Sankar who has since taken over as Chief (Project Appraisal) in the Planning Commission with effect from 1st November, 1972, will continue to act as Secretary of the Committee.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary for general information.

S. B. LAL, Jt. Secy.

(1815)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1972

सं० को० 1-13(11)/70—भारत सरकार, भारत के राजपत्र (असाधारण) सं०/74, तारीख 15-10-70 में प्रकाशित, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के संकल्प सं० को० 1-13(11)/70 तारीख 13 अक्टूबर 1970 के आंशिक उपान्तरण से और समसंख्यांक संकल्प तारीख 24-4-72 के अनुक्रम में, ईंधन नीति समिति की अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए 31-3-73 तक का समय सहर्ष अनुशात करती है।

श्री टी० एल० शंकर, जिन्होंने योजना आयोग में 1-11-72 से मुख्य (प्रायोजना मूल्यांकन) का कार्यभार ग्रहण किया है, समिति के सचिव के रूप में कार्य करने रहेंगे।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव।